



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 फाल्गुन, 1940 (श०)

---

संख्या- 157 राँची, बुधवार, 27 फरवरी, 2019 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

26 फरवरी, 2019

संख्या-06/TCPO/विविध-01/2018/न०वि०-904-- भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम-17, दिनांक-26.03.2016) की धारा-20 में निहित प्रावधान के आलोक में झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या-5503, दिनांक-19.11.2018 द्वारा किया गया है।

2. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-9 की धारा-75 के प्रावधानों के आलोक में झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के सम्यक् वित्तीय प्रबंधन हेतु Jharkhand Real Estate Regulatory Fund का गठन किया जाता है।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-9 की धारा-76 (2) के प्रावधान के आलोक में प्राप्त राशि Jharkhand Real Estate Regulatory Fund का अंश होगा। संधारित राशि का व्यय अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित दायित्वों के निर्वहन के क्रम में झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

3. Jharkhand Real Estate Regulatory Fund का संचालन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-75 एवं 76 (2) के प्रावधानों के अनुसार झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।

बैंक खाता के संचालन की विधि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-75 (3) के अनुसार होगी।

4. Jharkhand Real Estate Regulatory Fund के गठन एवं संबंधित बैंक खाते के परिचालन के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-14.02.2019 में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**अजय कुमार सिंह,**  
सरकार के सचिव।

-----